



# नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका  
अप्रैल 2018



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर

## संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



## विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाना है इसके तहत निगम सभागार में विभिन्न जोनों से उपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हे आगामी 05 से 13 अप्रैल 2018 तक प्रत्येक जोन के वार्डों में शिविर लगाये जाने की जानकारी दी गई है। शिविर में प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना, राशन कार्ड, श्रमकार्ड, दिव्यांग, पेंशन, प्रधानमंत्री बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हितग्राही अपना पूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। शिविर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जायेगा। आयुक्त के0एल0 चौहान ने राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए शिविर में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को उपस्थित रहने निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि हितग्राहियों का चिन्हांकन कर प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए घर-घर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने एवं छुटे हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## 04 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा सात दिवसीय शिविर में

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी निवासियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 05 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सभी 06 जोन के 2-2 वार्ड मिलाकर सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि हमारा उद्देश्य होगा हर घर तक पहुंचकर शासन की योजनाओं को बताना पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना। इसके लिए प्रत्येक जोन से अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर ड्यूटी लगाई गयी है। प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना जिन हितग्राहियों के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन नहीं है, अन्त्योदय राशन कार्डधारी, अनु0जाति, अनु0जनजाति के सदस्य, ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के मुखिया के पास श्रमिक कार्ड हो वे परिवार आवेदन कर सकते हैं। **आवश्यक दस्तावेज:-** बीपीएल राशन कार्ड, परिवार के दो सदस्यों का आधार कार्ड, महिला मुखिया का बैंक पासबुक, व दो पासपोर्ट कलर फोटो, मोबाईल नम्बर के साथ शिविर में जमा करना होगा। मजदुर कार्ड बनाने के साथ पूर्व में पंजीकृत श्रमिक कार्डधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पंजीयन किया जायेगा



नगर पालिक निगम भिलाई



## श्रम शक्ति कल्याण शिविर का आयोजन

शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिलें इस हेतु श्रम शक्ति कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ऐसे हितग्राही जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री उज्जवला, संगठित/असंगठित कर्मकार योजना, दिव्यांगों का यूडीआईडी, का लाभ नहीं मिला है वे इस शिविर में आवेदन कर शासन की योजनाओं का लाभ उठायें।

उक्त उद्गार छ0ग0 शासन के केबिनेट मंत्री रमशीला साहू ने निगम द्वारा बीआरपी चौक स्टेशन मरोदा तथा शासकीय पूर्व मा. शाला रुआबांधा में लगाये गये शिविर में उपस्थित होकर नागरिकों के बीच व्यक्त किये। मंत्री श्रीमती साहू ने आगे कहा कि यह शिविर विशेष कर ऐसे कामगार जो पुरे दिन काम में लगे रहते हैं और उन्हें पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता उनके लिए श्रमिक बाहूल्य क्षेत्रों के आसपास लगाया गया है। ताकि अधिक से अधिक हितग्राही शासन की योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों से कहा कि अगर आपके आसपास के लोगों को इस शिविर की जानकारी नहीं है तो उन्हें शिविर स्थल तक लाकर विशेष रूप से दिव्यांग हितग्राहियों की मदद कर उन्हें योजना का लाभ दिलवायें इसे सुनहरा अवसर समझें।



नगर पालिक निगम भिलाई



## प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार पर हुआ एफआईआर

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास "मोर जमीन मोर मकान" के अंतर्गत मकान बनाने वाले ठेकेदार अविनाश मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर छावनी थाने में दर्ज कराया गया। आयुक्त के0एल0 चौहान को निगम जनदर्शन में गिरधर लाल पटेल निवासी प्रगतिनगर केम्प-01 वार्ड 20 द्वारा शिकायत की गई कि बी.एल.सी. घटक "मोर जमीन मोर मकान" में मकान बनाने के लिए आवेदन किया गया था जो प्रक्रियाधीन था ठेकेदार मिश्रा द्वारा आकर घर में बताया गया कि आपके मकान के निर्माण मेरे द्वारा किया जायेगा मैं निगम का अधिकृत ठेकेदार हूं मुझे मकान निर्माण शुरू करना है कार्य करने के लिए 14 हजार रुपये दीजिए। आवेदक द्वारा प्रबंध करके जून 2017 में दिया गया।

आवेदक द्वारा बार-बार सम्पर्क करने के बाद ठेकेदार द्वारा मकान बनाना शुरू नहीं किया गया जबकि आवेदक गिरधर पटेल का मकान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप सही नहीं पाये जाने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। निगम के कार्यपालन अभियंता एस0पी0 साहू को जांच करने के लिए निगम आयुक्त श्री चौहान द्वारा अधिकृत किये गये जिसपर आवेदक का शिकायत सही पाया गया। ठेकेदार द्वारा निगम भिलाई को बदनाम किया जा रहा था कि पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है नक्शा नहीं बन रहा है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मकान बनाने वाले अन्य हितग्राहियों से अपील की है कि किसी भी ठेकेदार को मकान बनाने के लिए रुपये न देंवे जब तक निगम का स्वीकृत नक्शा प्रपत्र सहित नहीं मिल जाता है। निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने वाले सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि सभी मकानों को समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ बनाकर हितग्राही को दें। मकान बनाने में विलंब करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।



नगर पालिक निगम भिलाई



## बारिश पूर्व चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अधोसंरचना मद के विकास कार्य, केन्द्र एवं राज्य परिवर्तित योजना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, धार्मिक न्यास के अंतर्गत कार्य, जिला खनिज संस्थान न्यास, सांसद निधि विधायक निधि, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्य, खाद्य विभाग, शहरी स्वास्थ्य के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, निगम मद सहित चल रहे अन्य कार्य से जुड़े समस्त विभाग प्रमुख, जोन आयुक्तों एवं अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक निगम सभागार में ली।



नगर पालिक निगम भिलाई



**रामनगर मुक्तिधाम शासकीय स्कूल में गैस कनेक्शन चुल्हा एलपीजी गैस शिविर**  
भिलाईनगर/ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में बचे हुए 20 हितग्राहियों को रामनगर मुक्तिधाम शासकीय स्कूल में गैस कनेक्शन चुल्हा एलपीजी गैस शिविर लगाकर वितरित किया गया। चयनित कुल 52 हितग्राही रितूराज गैस एजेंसी सुपेला के माध्यम से चयनित किये गये हैं जिसमें से 20 हितग्राहियों का मोबाईल नम्बर के माध्यम से सम्पर्क किया जा सका शेष 32 हितग्राही का मोबाईल नम्बर गलत होने के कारण प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का गैस कनेक्शन प्रदान नहीं हो पा रहा है। जो हितग्राही रितूराज गैस एजेंसी में नियमानुसार आवेदन जमा किये थे वे वहा जाकर सम्पर्क करके अपना गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। रीना साव, पार्वती बंछोर, लाल बाई देवांगन, रामकुमारी निषाद ने बताया कि उन्हें गैस चुल्हा जलाने नहीं आता इसपर हितग्राहियों के जागरूकता के लिए गैस चुल्हा जलाने की विधि के साथ सुरक्षा के तरीके भी बताये गये। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन, वार्ड पार्षद रामानन्द मौर्या, रितूराज गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर सदानंद भेड़िया, मैनेजर शंकर, एरिया आफिसर दिलीप, फुड इंस्पेक्टर, सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।



**नगर पालिक निगम भिलाई**





**भिलाईनगर/** शहर की सफाई जनभागीदारी से पुरा हो सकता है सफाई के कार्य को जनता से जोड़ने के लिए स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता सुपरवाइजर, तथा स्वच्छता मित्रों के मोबाईल नम्बर एवं नाम लोगों की बीच प्रसारित हो ताकि नागरिक घर-घर से निकलने वाले कचरे में आने वाले अवरोध की जानकारी उच्च स्तर को पहुंचा सके। महापौर देवेन्द्र यादव, महापौर परिषद के स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने महापौर कक्ष में निगम के स्वास्थ्य अमले की बैठक लेकर उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वार्ड भ्रमण के दौरान यह देखा है कि शहर के बीच में बनाये गये कचरा डम्पिंग यार्ड तथा प्रायमरी कलेक्शन सेंटर की संख्या में कमी आयी है इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इसके बाद भी कुछ प्रायमरी कलेक्शन सेंटर अभी भी रहवासी क्षेत्रों में मौजूद हैं जिसे खत्म करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वार्ड में सार्वजनिक स्थलों पर उस क्षेत्र के सुपरवाइजर तथा सफाई मित्र स्वच्छता निरीक्षक को मोबाईल नम्बर एवं नाम का बोर्ड बनाकर वार्डों में लगायें। सफाई के लिए सबकी जिम्मेदारी तय हो आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अहम और महत्वपूर्ण होगी। भिलाई की जनता पेयजल और मोहल्ले की सफाई के लिए बहुत उम्मीद से निगम की ओर निहारता है जिसपर खरे उतरना निगम के स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन्हे जो कार्य सौंपे गये हैं वे पुरी ईमानदारी के साथ करें सौंपे गये कार्य के प्रति हीलहवाला बर्दाश्त नहीं होगा ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर मैं उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अनुशंसा करने से पीछे नहीं हटूंगा।



**नगर पालिक निगम भिलाई**



**भिलाईनगर/** नगर पालिक निगम, भिलाई के महापौर देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक महापौर कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में 5 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया जिसमें दिगम्बर जैन सभा भिलाई द्वारा नेहरु नगर पश्चिम में जोन कार्यालय के पास के चौक को स्वयं के व्यय पर अहिंसा चौक के रूप में विकसित करने आचार्य 108 विद्यासागर महाराज के स्वर्ण दीक्षा वर्ष के अवसर पर चौराहे में कीर्ति स्तम्भ निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद के सदस्यों ने चौक के रखरखाव एवं संधारण की जिम्मेदारी सहित 6 अन्य शर्तों के साथ निर्माण की अनुशंसा किया गया साथ ही राज्य परिवर्तित योजना अंतर्गत वाई 34 में हाट बाजार निर्माण कार्य, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति (जोन 03), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत नये प्रकरणों की स्वीकृति (जोन 04), संजय नगर तालाब का सौन्दर्यीकरण बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति की अनुशंसा किया गया। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, दुर्गा प्रसाद साहू, डा. दीवाकर भारती, साकेत चन्द्राकर, केशव बंछोर, नरेश कोठारी, सुशीला देवांगन, सूर्यकान्त सिन्हा, सचिव जीवन वर्मा, आयुक्त के प्रतिनिधि आर0के0 साहू, राजस्व अधिकारी एच0के0 चन्द्राकर, प्रशान्त शुक्ला, संजय बागड़े, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली उपस्थित थे।



**नगर पालिक निगम भिलाई**



## 01 मई को श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के प्रभारी आयुक्त श्री आर०के० साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 01 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सामुहिक भोज एवं "स्वच्छता श्रमिक हमारे स्वच्छ सैनिक" विषय पर मासिक थिमेटिक ड्राईव प्रारम्भ करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया है नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा 01 मई को दोपहर 12.30 बजे निगम मुख्य कार्यालय में श्रमिकों का सम्मान समारोह एवं सामुहिक भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री साहू ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त पत्र में निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राज्य एवं केन्द्र शासन के इस कार्यक्रम में मंशा यह है कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है

### Editorial Board

श्री कुमार लाल चौहान  
आयुक्त (आई.ए.एस.)  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

### Contact & Address

श्री सुभाष ठाकुर  
जनसंपर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

